



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1934 (श10)
(सं0 पटना 106) पटना, बुधवार, 6 फरवरी 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

1 फरवरी 2013

सं0 नि० प्रा० /नि० 1-05/2012 खंड-148—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि संघ की उपविधियों के अनुसार मतदाताओं द्वारा पहले प्रबंधकारिणी कमिटी के 12 (बारह) सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा एवं तत्पश्चात् उक्त निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन अध्यक्ष के रूप में पुनः संघ के मतदाताओं द्वारा किया जायेगा।

और, चूँकि संघ में प्रबंधकारिणी कमिटी के 12 (बारह) सदस्यों में से 2 (दो) स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के सदस्यों के लिए, 2 (दो) स्थान महिलाओं के लिए, 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग कोटि के सदस्यों के लिए एवं 1 (एक) स्थान अति पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों एवं अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु क्रमशः दिनांक 17.04.2013 (बुधवार) तथा दिनांक 29.04.2013 (सोमवार) की तिथियाँ नियत करता है तथा संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों एवं

अध्यक्ष को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-23 दिनांक 07.01.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.12.2012 निर्धारित की गयी है।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3**) में अलग-अलग सूचना दिनांक 21.03.2013 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के पश्चात् प्राधिकार द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकेंगे एवं सविरोध निर्वाचन की स्थिति में दिनांक 29.04.2013 को संघ की मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं द्वारा विधिमान्य रूप से नामांकित सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जायेगा।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के निर्वाचन

हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम

सूचना का प्रकाशन	21.03.2013 (बृहस्पतिवार)
नामांकन की तिथि	06.04.2013 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
संवीक्षा की तिथि	08.04.2013 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	09.04.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
मतदान, अगर आवश्यक हो	17.04.2013 (बुधवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
मतगणना	17.04.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम

सूचना का प्रकाशन	21.03.2013 (बृहस्पतिवार)
नामांकन की तिथि	18.04.2013 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक
संवीक्षा की तिथि	18.04.2013 (बृहस्पतिवार) 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	18.04.2013 (बृहस्पतिवार) 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक
मतदान, अगर आवश्यक हो	29.04.2013 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
मतगणना	29.04.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-2

विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों के निर्वाचन के लिए)

विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड निबंधन संख्या....., पता
के प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,
 मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
 (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 12 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	12
• एस.सी./एस.टी कोटि	02 पद (आरक्षित)
• महिला कोटि	02 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अति पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	06 पद (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
 (स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता
 (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक
बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर बजे पूर्वाह्न से बजे
 (स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक..... को बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न के पूर्व
 तकपर दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के
 (स्थान का नाम)

तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का
 आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-3**विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के निर्वाचन****प्रपत्र-1****सूचना का प्रपत्र**

(अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए)

विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड निबंधन संख्या....., पता
के अध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है। अध्यक्ष का चुनाव प्रबंधकारिणी कमिटी
 के निर्वाचित सदस्यों के बीच से संघ के मतदाताओं द्वारा किया जायेगा।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
 (स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता
 (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे मध्याह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
 (नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक
बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर ... बजे मध्याह्न से ... बजे
 (स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को बजे अपराह्न से बजे अपराह्न के पूर्व
 तकपर दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के
 (स्थान का नाम)

तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का
 आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 106-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>